

## Workshop Accounts

5

WWS  
(With Books)  
(पुस्तकों सहित)  
2004

Time Allowed : 3 Hrs.  
निर्धारित समय: 3 घंटे

Maximum Marks : 100  
अधिकतम अंक: 100

Note: QUESTION 1 IS COMPULSORY. From the remaining questions, answer any FOUR. All questions carry equal marks.

टिप्पणी:- प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है. शेष प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दें. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं.

1. State if the following statements are TRUE or FALSE: -  
निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत, बताएं:-
  - i) Incentive is deducted from the salary of a charge-man/ supervisor if idle time exists due to power failure.  
यदि निष्क्रिय समय बिजली फेल हो जाने से उत्पन्न होता है तो चार्जमैन/पर्यवेक्षक के वेतन से प्रोत्साहन की कटौती कर ली जाती है.
  - ii) Each charge-man maintains two sets of time books-for even and odd dates respectively.  
प्रत्येक चार्जमैन टाइम बुक के दो सेट - क्रमशः सम तथा विषम तिथियों के लिए बनाता है.
  - iii) Expenditure on Electricity consumed in a lighting bay of a Locomotive repair shop is a part of General On Cost.  
किसी रेल इंजन मरम्मत शॉप की लाइटिंग बे में इस्तेमाल हुई बिजली का व्यय सामान्य ऊपरी लागत का हिस्सा है.
  - iv) The salary of Electrical staff in the Time Office working under control of the Accounts department is charged directly to the cost of the main repair activity of a repair workshop.  
लेखा विभाग के नियंत्रण में काम करने वाले टाइम ऑफिस के विद्युत कर्मचारियों का वेतन सीधे तौर पर मरम्मत कारखाने की मुख्य मरम्मत गतिविधि को प्रभारित किया जाता है.
  - v) The correct allocation of repairs to a traverser would be E-350.  
एक ट्रैवर्सर की मरम्मत के लिए सही विनिधान (एलोकेशन) ई-350 होगा.
  - vi) Normally the Mill Wright shop has the maximum number of Essentially Intermittent workers.  
सामान्यतः मिल राइट शॉप में सर्वाधिक संख्या में एसेंशिएली इंटरमिटेंट कर्मचारी होते हैं.
  - vii) The balances held under the inventory Plan Heads all form part of the railways Capital-at-Charged.  
इनवेंटरी योजना शीर्षों में पड़े हुए सभी शेष रेलवे की प्रभार्य पूंजी का अंग होते हैं.
  - viii) Expenses of apprentices attached to the main shops of production units are classified as direct cost.  
उत्पादन इकाइयों की मुख्य शॉपों से संबद्ध एप्रेंटिसों के व्यय को सीधी लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
  - ix) Depreciation is one of the elements of machine working expenses allocated to Shop On Cost.  
शॉप ऊपरी लागत को आबंटित मशीन संचालन व्यय का एक तत्व मूल्य ह्रास है.
  - x) Outturn statements Part-I and II form part of WGR.  
उत्पादन विवरण भाग-I एवं II डब्ल्यू.जी.आर. का अंग हैं.

